

# शोध. संचयन

Half yearly, Bilingual (हिन्दी & English)  
ISSN 0975 1254 (Print)  
ISSN 2249 9180 (Online)

**Vol. 8, Issue 1, 15 January, 2017**

---

**An Internationally Indexed Refereed Research Journal  
And a complete Periodical dedicated to  
Humanities & Social Science Research**

---

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा से सहयोग प्राप्त

मुख्य सम्पादक :  
डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह

सम्पादक :  
डॉ. सुनीता सिंह

कार्यकारी सम्पादक :  
डॉ. विपिन चन्द्र कौशिक  
डॉ. विकास मिश्रा

**[www.shodh.net](http://www.shodh.net)**

Contact us with ;



# शोध. संचयन

Vol. 8, Issue 1, 15 January, 2017

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पर केन्द्रित अर्द्धवार्षिक शोध जर्नल

## प्रकाशकीय कार्यालय :

B-9, द्वितीय तल, गगन अपार्टमेंट,  
गगन विहार एक्सटेंशन, दिल्ली, 51  
E-mail : shodhsanchayan@gmail.com  
info@shodh.net  
URL : www.shodh.net

## संपादकीय पत्र व्यवहार :

डॉ० सुनीता सिंह, संपादक  
409, शांतिवन अपार्टमेंट  
2A/244A, आजाद नगर कानपुर- 208002  
सम्पर्क : +919415050808

मूल्य : ₹0 150h/a-

## SUBSCRIPTION FEE OF JOURNAL

Individual :				
	One Year	ThreeYear	Five Year	Life*
Rs.	Not Available	800	1400	3000
US\$	15	30	60	200

Institutional :				
	One Year	ThreeYear	Five Year	Life*
Rs.	400	1100	1800	4000
US\$	25	50	100	300

Bank Draft or Crossed Cheque (CBSB Branches for out station cheque) accepted in Favour of "**Shodh Sanchyan**" payable at **Kanpur**. Overseas subscribers can subscribe by electronic transfer. For detail visit **www.shodh.net**. Excluding Postage.

\*Subscription fee may be revised according to Editorial Board Decision. Life subscription is for ten years or survival of the journal, which is less. Postage charge excluded.

नोट : प्रकाशित आलेखों के विचारों से सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। समस्त वाद क्षेत्र कानपुर होगा।

संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ० सुनीता सिंह द्वारा शिवा प्रिंटिंग वर्क्स, A-21/11 नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-II नई दिल्ली, 98 से मुद्रित कराकर B-9, द्वितीय तल, गगन अपार्टमेंट, गगन बिहार एक्सटेंशन, दिल्ली-51 से प्रकाशित

## लेखकों से अनुरोध

शोध संचयन सामाजिक विषय एवं मानविकी का अर्द्धवार्षिक शोध-जर्नल है जिसमें उपरोक्त विषयों से संबंधित सभी उपविषयों के मौलिक शोध-पत्र, शोध समीक्षा, विचार, लेखों आदि का प्रकाशन किया जाता है। शोधकर्ता हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में अपने शोध पत्र भेज सकते हैं।

शोध पत्र भेजते समय कृपया निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दें:-

1. शोध-पत्र अधिकतम 4000-5000 शब्दों तक में हो तथा 150 शब्दों का सार संक्षेप एवं विषय संकेतक (Key Words) भी प्रेषित करें। प्रचलित शब्दावली का व्यवहार अपेक्षित है।
2. संदर्भ ग्रन्थ सूची का उल्लेख अवश्य करें। संदर्भ ग्रन्थ सूची में लेखक का उपनाम, मुख्य नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशन का वर्ष एवं पृष्ठ संख्या अंकित होना चाहिए। पत्रिका के संदर्भ में लेख का शीर्षक, पत्रिका का नाम, अंक, पृष्ठ क्रम एवं प्रकाशन वर्ष दें।
3. शोध-पत्र A4 साइज के कागज पर कम्प्यूटर से एक तरफ मुद्रित हो।
4. शोध-पत्र एम.एस. वर्ड अथवा पेज-मेकर पर हिन्दी में Krutidev 10 के Font size 12 तथा अंग्रेजी में Times New Roman में Font size 10 में टाइप करवाकर भेजें।
5. ई-मेल द्वारा प्रपत्र भेजने पर भी आलेख **तीन प्रतियों में (Hard Copy)** तथा **सीडी में** अवश्य भेजें। जिससे प्रूफ रीडिंग सम्बन्धी कमियों को दूर किया जा सके।
6. शोध-पत्रों की स्वीकृति एवं अस्वीकृति का अन्तिम निर्णय सम्बन्धित विषय के दो विशेषज्ञों की राय से सम्पादक मण्डल द्वारा किया जाता है। इस संबंध में अन्तिम अधिकार प्रधान सम्पादक को प्राप्त है जो सभी सदस्यों को मान्य होगा।
7. शोध-पत्र के प्रकाशन हेतु सम्पादक के नाम पत्र होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से शोध-पत्र के संबंध में "मौलिक एवं अप्रकाशित" शब्द लिखा होना चाहिए और उसे अन्यत्र न भेजे जाने की पुष्टि हो। [www.shodh.net](http://www.shodh.net) से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी प्राप्त करें और लेख के साथ भरकर भेजें।
8. शोध-पत्र में सारणी एवं चित्रों का प्रयोग लेख के बीच में न करते हुए अंत में संदर्भ या संलग्नक के रूप में करें।
9. शोध-पत्र ई-मेल द्वारा हमारे ई-मेल पते पर और डाक द्वारा निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं-

[shodhsanchayan@gmail.com](mailto:shodhsanchayan@gmail.com)

[info@shodh.net](mailto:info@shodh.net)

डॉ० सुनीता सिंह, संपादक शोध संचयन,

409, शान्तिवन अपार्टमेंट

2A/244A आजाद नगर, कानपुर-208002 (उ०प्र०)

अपने आलेख को लिखते समय कृपया ध्यान दें:-

(शोध आलेख में होने वाली सामान्य त्रुटियाँ)

1. आलेख में नई एवं मौलिक उद्भावनाओं/अवधारणा के प्रतिपादन का अभाव एवं पूर्व स्थापित अवधारणा/मान्यता, स्थापना आदि का पिष्टपेषण
2. शोध आलेख का तार्किक एवं शृंखलाबद्ध न होना और शब्दजाल की अनावश्यक उपस्थिति।
3. संदर्भ साहित्य का अपर्याप्त अध्ययन।
4. त्रुटिपूर्ण तथ्यों एवं आँकड़ों का उल्लेख
5. पाठ में उल्लिखित संदर्भ का लेख के अन्त में दी गयी संदर्भ सूची में न लिखा जाना
6. संदर्भ में पुस्तक के संस्करण का न लिखा जाना
7. पाठ में व्याकरणिक त्रुटियों का होना
9. वाक्य में काल का असंगत होना
10. प्रस्तुति में असंगतता
11. लेखक के द्वारा आलेख शुद्ध करते समय शब्द/पद/वाक्य का लोप हो जाना
12. लेख का अपेक्षाकृत बड़ा हो जाना
13. विषय प्रतिपादन में विषय का अस्पष्ट होना
14. तथ्यों, भावों या विचारों की पुनरावृत्ति

### Abstract:-

The researchers must give Abstract of their papers/Articles. It must be concise, clear and perfect in itself and should not be the repetition of paragraphs given research papers.

### शोध सारांश :-

अनुसंधाता द्वारा अपने शोध पत्र/शोध आलेख का आलेख सार (Research Article Abstract) अधिकतम 150 शब्दों में अवश्य दिया जाये। आलेख सार बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वह अपने आप में संक्षिप्त, स्पष्ट एवं पूर्ण हो तथा मूल शोध आलेख के अनुच्छेदों की पुनरावृत्ति न हो।

### Key Words :-

Keywords of research paper/article must be given at the beginning of the paper. It should not be in more than 5 words.

### विषय संकेत :-

शोध पत्र/लेख के विषय का सम्पूर्ण परिचय प्रस्तुत करने वाले शब्दों को अवश्य दें। इनकी संख्या पाँच से अधिक नहीं होनी चाहिए।

### **Be Research Journalist**

**Be a Research Journalist and join us. Send research based News, information, reports and photographs of Seminars etc.**

## RESEARCH FLOURISHES THROUGH PUBLICATION & EFFICIENT ACADEMIC NETWORKING

### CHIEF EDITOR :

**Dr. Yogendra Pratap Singh**  
Dept. of Hindi, D.A-V. College, Kanpur

### EDITOR :

**Dr. Sunita Singh**  
Dept. of M.Ed., V.S.S.D. College, Kanpur

### ASSOCIATE EDITOR :

**Dr. Pradeep Kumar Rao,**  
Principal, M.P. Degree College, Gorakhpur

**Dr. Amit Kumar Dwivedi,**  
Entrepreneurship Development Institute of  
India(EDII), Gandhi Nagar, Gujrat, Ex. Fellow,  
IIM, Ahmadabad

### NEWS EDITOR :

**Dr. A.K. Singh**  
Incharge, IJMC, C.S.J.M. University, Kanpur

**Dr. Ramesh Verma,**  
Senior Journalist, Dept. of Hindi, D.A-V.  
College, Kanpur

### EXECUTIVE EDITOR :

**Dr. Bipin Chandra Kaushik,**  
Dept. of Pol. Science, D.B.S. College, Kanpur

**Dr. Vikas Mishra,**  
Dept. of B.Ed., Akbarpur Degree College,  
Akbarpur, Kanpur- Dehat

### HINDI LANGUAGE EDITOR :

**Dr. Vibha Singh,**  
Dept. of Hindi, D.A-V College, Kanpur

### ENGLISH LANGUAGE EDITOR :

**Dr. Suman Singh,**  
Dept. of English, P.P.N. College, Kanpur

### TRANSLATION EDITOR :

**Dr. Rajendra Prasad Pandey,**  
Dept. of Translation Studies, I.G.N.O.U., Dehli

### CONVENER & CO-CONV. REVIEW COMMITTEE :

**Dr. Raj Saran Shahi,**  
Dept. of Education, Budh P.G. College, Kushi-  
nagar

**Dr. Jyoti Yadav,**  
Dept. of English, M.K.R. Gov.College ,  
Ghaziabad.

### ASSISTANT EDITOR

**Mr. Nitesh Verma**  
Asst. Lib., Central Library, Baba Saheb  
Bheem Rao Ambedkar, Central University,  
Lucknow

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

**Dr. Ram Chandra,**  
Dept. of Hindi, J.N.U., Delhi

**Dr. Tribhuvan Singh,**  
Principal, B.A.D. College, Ballia

**Dr. Lalit Singh,**  
Dept. of Humanities, Registrar, M.G.C.G.  
Vishwavidyalaya, Chitrakot, Satana

**Dr. Pawan Agrawal,**  
Dept. of Hindi, Lucknow Univ., Lucknow

**Dr. Sanjay Singh,**  
Sec. U.P.H.E.S.C., Allahabad

**Dr. Jai Veer Singh,**  
H.O.D, Hindi, R.M.P.P.G., College, Sitapur

**Dr. Krishna Kanti Dixit,**  
Dept. of Hindi, D.A-V. College, Kanpur

**Dr. Mahesh Diwakar,**

*President, Akhil Bhartiya Sahitya Kala  
Manch, Mooradabad*

**Dr. Gayatri Singh,**  
*HOD., Hindi, Armapore Degree College,  
Kanpur*

**Dr. Hardeep Singh Negi,**  
*H.O.D. Hindi, S.C.D. Govt. P.G. College,  
Ludhiyana*

**Dr. Kusum Singh,**  
*Dept. of Humanities, M.G.C.G.  
Vishwavidyalaya, Chitrakot, Satna*

**Dr. Jacob Kurion,**  
*Professor of International Economics at  
the Johns Hopkins University Center for  
Advanced International Relations ( SAIS) in  
Nanjing, China.*

# PATRON

**Dr. Nagendra Swaroop,**

*D. Litt., Secretary, Board of Management,  
Dayanand Shiksha Sansthan, Kanpur*

**Prof. Ram Achal Singh,**

*Ex. V.C., R.M.L.A. Univ., Faizabad,  
Ex. Chairman, UPHESC, Allahabad*

**Prof. Narendra Kohali,**

*Eminent Hindi Writer, Delhi*

**Prof. Achutanand Mishra,**

*Ex. V.C., M.L.C.Patakarita Vishwavidyalaya,  
Bhopal*

**Prof. Gyanendra Singh,**

*Ex.V.C., M.G.C.G. Vishwavidyalaya,  
Chitrakoot, Satana*

**Prof. K.B. Pandey,**

*V.C., M.G.C.G. Vishwavidyalaya, Chitrakoot,  
Satana, Ex. Chairman, UPPSC, Allahabad, Ex.  
V.C., C.S.J.M. Univ., Kanpur*

**Prof. A.D.N. Bajpai,**

*V.C., Himchal University, Shimla*

**Sri. Suresh Chandra Shukla,**

*Editor, 'Spial', Norway*

**Prof. Adya Prasad Pandey,**

*V.C., Manipur University Manipur*

**Prof. Rajaram Yadav,**

*V.C., V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur*

**Prof. Sadanand Prasad Gupta**

*Addhyaksh, U.P. Hindi Sansthan, Lucknow*

**Prof. Surendra Dubey,**

*V.C., Bundelkhand University, Jhanshi*

**Prof. R.S. Dubey,**

*V.C., Tilka Majhi Bhagalpur University,  
Bhagalpur*

**Prof. Nand Kishore Pandey,**

*Director, Kendriya Hindi Sansthan, Agra*

**Prof. Shushma Yadav,**

*Pro. V.C., IGNOU, New Delhi*

**Dr. Rajneesh Shukla,**

*Member Secretary, Indian Council For  
Philosophical Research, New Delhi.*

**Dr. Raj Narayan Shukla,**

*Addhyaksh, U.P. Bhasha Sansthan, Lucknow*

**Prof. Bhagwat Singh,**

*Ex. Principal, Hari Ram Degree College,  
Mairwa, Chhapara*

## LEGAL CELL :

**Manish Goyal,**

*Additional Advocate General,  
UP Allahabad*

**Sanjai Kumar Bisen,**

*Advocate-on-Record,  
Supreme Court, New Delhi*

**Ratneswar Pandey,**

*Advocate, H.C., New Delhi*

## PUBLICATION OFFICE-IN-CHARGE

**Suraj Singh,**

*New Delhi*

**Ashish Kumar**

*Editorial staff*

# शोध. संचयन

Vol. 8, Issue 1, 15 January, 2017

अनुक्रम

पृष्ठ

## Higher Education: Hi Re Education

*Dr A K Singh*.....08

शिक्षा- विषयक चिन्तन में श्रीमाँ ( मिरा अल्फासा ) का योगदान

*डॉ मधुरिमा सिंह* .....10

बोक्सा जनजाति: बदलता समाज एवं बदलती परम्पराएं

*डॉ सुनील दत्त खडूड़ी*.....14

## Indian Life, Culture And Sensibilities: Reading

### Of A.k. Ramanujan's Poetry

*Kaumudi Singh*.....18

पहाड़ी कोरवा जनजाति में शिक्षा एवं शिक्षण की समस्याएँ ( छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के संदर्भ में )

*इरशाद खान*.....22

हिंदी बाल कविताओं में पर्यावरण चेतना

*डॉ प्रभा पंत*.....27

भारत में समाजवाद की समकालीन प्रासंगिकता

*डॉ नीलम चौरे*.....30

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ( आईसीटी ) ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में

*चंचल रानी*.....36

छायावादी कवि सुमित्रानन्दन पंत के काव्य में प्रकृति

चित्रण: एक समीक्षात्मक अध्ययन

*जयन्त कुमार बोरो*.....42

## Woman Bonding and Self-Realization:

### Toni Morrison's God Help the Child

*Aprajita Shukla*.....48

### A Comparative Essay On A Testimony By

### Sugunamma And Jhansi Ki Rani By Subhadra

### Kumari Chauhan

*SUGANDHA SINGH PARMAR*.....51

बीसवीं सदी के हिन्दी महिला कथा-साहित्य में नारी का पारिवारिक परिवेश

*अर्चना सिन्हा*.....55

पर्यटन उद्योग में सोशल मीडिया की भूमिका : एक विवेचन सविता शर्मा.....59

कबीर-काव्य की सामाजिक प्रासंगिकता

*डॉ. संगीता लाल*.....62

त्रिलोचन शास्त्री की कहानियाँ : देशकाल की अन्तर्वस्तु का विवेचन

*अर्जुन शर्मा*.....65

हास्य व्यंग्य के कुशल चितरे 'अशोक चक्रधर'

*डॉ मनीषा गुप्ता*.....70

### A.K. Ramanujan- As an Expatriate and Nostalgia

*Dr. Simmi Agarwal*.....73

चुनाव में बढ़ते धनबल के दुष्प्रभाव को रोकने में निर्वाचन

आयोग की भूमिका

*डॉ. अविनाश प्रताप सिंह*.....76

### An honest warning to research contributors

The writing of research papers is a very common phenomenon in the academic world. But now-a-days this is done without giving due care to the norms and ethics accepted for writing research papers. Even a small mistake spoils the reputation of the concerned person. We come across several stories of the violation of accepted norms. With the help of Electronic Editing, it is very common to cut, copy and paste in Research article / thesis formation without giving a reference of the original work. We should always keep in mind that it is not a fair practice. While reviewing, sometimes we come across such malpractices. Such stories suggest that research scholars must be very honest and sincere in their work and must give proper attribution in case they quote any content from any original work.

**Editor**

### Key-points which you have to keep in mind

Your research article is no doubt relevant and important. But we are in need of your help. Please review your article according to our specified format and send it.

There are certain key-points which you have to keep in mind-

\*Article must have any research problem.

\*\*Title of the research article should reflect research problem.

\*\*\* Research Abstract about research work should be presented in max. 100 words.

\*\*\*\* Abstract:- Abstract of the paper/Articles must be concise, clear and perfect in itself and should not be the repetition of paragraphs from given research papers.

**शोध सारांश:-**

अनुसंधाता द्वारा अपने शोध पत्र/शोध आलेख का सारांश अधिकतम 100 शब्दों में दिया जाना अपेक्षित है। आलेख सार बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है कि वह अपने आप में संक्षिप्त, स्पष्ट एवं पूर्ण हो तथा मूल शोध आलेख के अनुच्छेदों की पुनरावृत्ति न हो।

\* Approx. 5 keywords for online searching the article

**Key Words:-**

Keywords of research paper/article must be given at the beginning of the paper. It should not be in more than 5 words.

**विषय संकेत :-**

शोध पत्र के विषय का सम्पूर्ण परिचय प्रस्तुत करने वाले कुछ शब्दों को अवश्य दें, जिससे आपके आलेख को इंटरनेट पर सहजता से खोजा जा सके।

\*References should be proper, relevant and abundant.

References must be in end-note style as given below-

Author's name, Book's name, Publisher, Place, Year, Page no.



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission  
quality higher education for all

[FAQs](#) [RTI](#) [Tenders](#) [Jobs](#) [Press Release](#) [Contact Us](#)



### UGC Approved List of Journals

View	Sl.No.	Journal No	Title	Publisher	ISSN	E-ISSN
<a href="#">View</a>	1	43870	Sodh Sanchayan	Shodh Sanchayan	09751254	